

नोट : प्रधान अधिसूचना सं. 04/2019-केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 6 जुलाई, 2019 को सा.का.नि. 487(अ), तारीख 6 जुलाई, 2019 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं. 6/2020-केंद्रीय उत्पाद शुल्क, संख्या सा.का.नि. 279(अ), तारीख 5 मई, 2020 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd November, 2021

No. 9/2021-Central Excise

G.S.R. 782(E).—In exercise of the powers conferred by section 112 of Finance Act, 2018 (13 of 2018), read with section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) (hereinafter referred to as the Excise Act), the Central Government being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 04/2019-Central Excise, dated the 6th July, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 487(E), dated the 6th July, 2019, namely:-

In the said notification, in the Table, -

- (i) against Sl. No. 1, for the entry in column (4), the entry “Rs. 13 per litre” shall be substituted;
 - (ii) against Sl. No. 2, for the entry in column (4), the entry “Rs. 8 per litre” shall be substituted.
2. This notification shall come into force with effect from the 4th November, 2021.

[F. No. 354/72/2021-TRU]

GAURAV SINGH, Dy. Secy.

Note : The principal notification No. 04/2019-Central Excise, dated the 6th July, 2019 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number 487(E), dated the 6th July, 2019 and last amended *vide* notification No. 6/2020-Central Excise, dated the 5th May, 2020, *vide* number G.S.R. 279(E), dated 5th May, 2020.